



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940
No. 747] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 1041(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ओडिसा राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
 - ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-II, -
खंड क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा के वेतन के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के पदों की तालिका में, प्रथम कॉलम में ओडिसा प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ओडिसा

पुलिस महानिदेशक, ओडिसा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स और महानिदेशक और पुलिस महा निरीक्षक – अग्निशमन सेवा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महा निरीक्षक – सीआईडी, अपराध शाखा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
निदेशक-सह-अपर पुलिस महानिदेशक – आसूचना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक – एचआरपीसी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

अपर पुलिस महानिदेशक – एस.ए.पी.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
पुलिस महानिरीक्षक, कारागार एवं निदेशक सुधार सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक – सतर्कता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक – प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक – मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक – कानून एवं व्यवस्था	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर निदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी अपराध शाखा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – सतर्कता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

पुलिस महानिरीक्षक – कार्मिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – आधुनिकीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – अग्निशमन सेवा एवं होम गार्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – फॉरेंसिक साइंस सर्विस	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के विशेष सचिव – गृह विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – आपरेशन (नक्सल विरोधी कार्रवाई)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – प्राविजनिंग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – विशेष शस्त्र बल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक – राज्य क्राइम (अपराध) रिकॉर्ड ब्यूरो	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – रेंज	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस आयुक्त दो संलग्न शहर, भुवनेश्वर और कटक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक – मानव अधिकार सुरक्षा प्रकोष्ठ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
अपर पुलिस आयुक्त, बीबीएसबार-सीटीसी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, ईओडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – सतर्कता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – कार्मिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – संचार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – होम गार्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – आधुनिकीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – मानव अधिकार और सामाजिक न्याय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – असूचना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क

उप पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी/अपराध	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – कंप्यूटर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
उप पुलिस महानिरीक्षक – एस.ए.पी.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
अपर पुलिस आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
पुलिस आयुक्त, संबलपुर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क"

(ख) खंड ख में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित, वेतन लेने वाले पदों में ओडिसा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

पुलिस अधीक्षक – कटक
पुलिस अधीक्षक – केंद्रपाड
पुलिस अधीक्षक – जजपुर
पुलिस अधीक्षक – जगतसिंहपुर
पुलिस अधीक्षक – पुरी
पुलिस अधीक्षक – खुर्दा
पुलिस अधीक्षक – नयागढ़
पुलिस अधीक्षक – बालासोर
पुलिस अधीक्षक – भद्रक
पुलिस अधीक्षक – मयुरभंज
पुलिस अधीक्षक – गंजान
पुलिस अधीक्षक – गजपति
पुलिस अधीक्षक – कंधमाल
पुलिस अधीक्षक – बोध
पुलिस अधीक्षक – कोरापुत
पुलिस अधीक्षक – नवरंगपुर
पुलिस अधीक्षक – मल्कानगिरी
पुलिस अधीक्षक – रायगढ़
पुलिस अधीक्षक – कालहंडी
पुलिस अधीक्षक – नवपाड़ा
पुलिस अधीक्षक – संबलपुर
पुलिस अधीक्षक – बारगढ़
पुलिस अधीक्षक – देवगढ़
पुलिस अधीक्षक – झरसुगुडा
पुलिस अधीक्षक – बोलनगिर
पुलिस अधीक्षक – सोनपुर
पुलिस अधीक्षक – धेनकनाल
पुलिस अधीक्षक – अंगुल

पुलिस अधीक्षक – सुंदरगढ़
पुलिस अधीक्षक – क्योँझर
पुलिस अधीक्षक – बेरहामपुर
पुलिस अधीक्षक – राऊरकेला
पुलिस अधीक्षक – सतर्कता
पुलिस अधीक्षक – अपराध शाखा
पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा
सहायक पुलिस महानिरीक्षक – राज्य पुलिस मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक – रेलवे
कमांडेंट
अपर पुलिस अधीक्षक – जिला/उप कमांडेंट, बटालियन (बीएनएस)
उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय
उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय, राऊरकेला पुलिस आयुक्तालय
उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय, बेरहामपुर पुलिस आयुक्तालय
उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय संबलपुर

[फा. सं. 11052/10/2017-एआईएस-॥(ख)]

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी : - प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 910(ई) दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. और संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे।

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	84ई	01.02.17
2.	82ई	01.02.17
3.	487ई	19.05.17
4.	646ई	27.06.17
5.	845ई	06.07.17
6.	1001ई	08.08.17
7.	1141ई	08.09.17
8.	1535ई	21.12.17
9.	1605ई	29.12.17
10.	198ई	28.02.2018

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2018

G.S.R. 1041(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Odisha** hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

- (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Third Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “Odisha” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Odisha

Director General of Police, Odisha	Level 17 in the pay matrix
Commandant General Home Guards & Director General and Inspector General of Police- Fire Services	Level 16 in the pay matrix
Additional Director General & Inspector General of Police- CID, Crime Branch	Level 15 in the pay matrix
Director- cum- Additional Director General of Police- Intelligence	Level 15 in the pay matrix
Additional Director General of Police- HRPC	Level 15 in the pay matrix
Additional Director General of Police- S.A.P.	Level 15 in the pay matrix
Inspector General of Prisons & Director Correctional Services	Level 15 in the pay matrix
Additional Director General of Police- Vigilance	Level 15 in the pay matrix
Additional Director General of Police- Training	Level 15 in the pay matrix
Additional Director General of Police- Headquarters	Level 15 in the pay matrix
ADGP, Law & Order	Level 15 in the pay matrix
Additional Director- Cum- Inspector General of Police- Intelligence	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- CID, Crime Branch	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Vigilance	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Personnel	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police-Modernization	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Fire Services & Home Guards	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Railways	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Forensic Science Service	Level 14 in the pay matrix
Special Secretary to Government- Home Department	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Training	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Operations (Anti- Naxalite Activities)	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Provisioning	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Special Armed Police	Level 14 in the pay matrix
Director- State Crime Record Bureau	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Ranges	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Police Twin Cities, Bhubaneswar & Cuttack	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Human Rights Protection Cell	Level 14 in the pay matrix
Addl. CP, BBSR-CTC	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police, EOW	Level 14 in the pay matrix

Deputy Inspector General of Police – Ranges	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Vigilance	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Personnel	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Communication	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Training	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Home Guards	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Modernization	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Human Rights and Social Justice	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Headquarters	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Intelligence	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – CID/Crime	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – Computers	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police – S.A.P.	Level 13A in the pay matrix
Additional Commissioner of Police	Level 13A in the pay matrix
Principal, Police Training College	Level 13A in the pay matrix
Commissioner of Police, Sambalpur	Level 13A in the pay matrix”

(b) in Part B relating to posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under ‘Odisha’ the following shall be substituted in the table,—

“Superintendent of Police – Cuttack
Superintendent of Police – Kendrapara
Superintendent of Police – Jajpur
Superintendent of Police – Jagatsinghpur
Superintendent of Police – Puri
Superintendent of Police – Khurda
Superintendent of Police – Nayagarh
Superintendent of Police – Balasore
Superintendent of Police – Bhadrak
Superintendent of Police – Mayurbhanj
Superintendent of Police – Ganjam
Superintendent of Police – Gajapati
Superintendent of Police – Kandhmal
Superintendent of Police – Boudh
Superintendent of Police – Koraput
Superintendent of Police – Nawarangpur
Superintendent of Police – Malkangiri
Superintendent of Police – Rayagad
Superintendent of Police –Kalahandi

Superintendent of Police – Nvpada
Superintendent of Police – Sambalpur
Superintendent of Police – Bargarh
Superintendent of Police – Deogarh
Superintendent of Police – Jharsuguda
Superintendent of Police – Bolangir
Superintendent of Police – Sonepur
Superintendent of Police – Dhenkanal
Superintendent of Police – Angul
Superintendent of Police – Sudargarh
Superintendent of Police – Keonjhar
Superintendent of Police – Berhampur
Superintendent of Police – Rourkela
Superintendent of Police – Vigilance
Superintendent of Police – Crime Branch
Superintendent of Police – Special Branch
Assistant Inspector General of Police- State Police Headquarters
Superintendent of Police- Railways
Commandant
Additional Superintendent of Police- Districts/ Deputy Commandant, Bns
Deputy Commissioner of Police- Territorial
Deputy Commissioner of Police-Territorial, Rourkela Police Commissionerate
Deputy Commissioner of Police- Territorial Berhampur Police Commissionerate
Deputy Commissioner of Police- Territorial Sambalpur”

[F. No. 11052/10/2017- AIS-II (B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 910 (E) dated the 23rd September, 2016.

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	84E	01.02.17
2.	82E	01.02.17
3.	487E	19.05.17
4.	646E	27.06.17
5.	845E	06.07.17
6.	1001E	08.08.17
7.	1141E	08.09.17
8.	1535E	21.12.17
9.	1605E	29.12.17
10.	198E	28.02.2018